

फा.सं. 19/ 1/2019-गो. -1 / 1
कर्मचारी चयन आयोग

विषय : कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, वैद्युत और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2019 - पेपर- II (वर्णनात्मक पेपर) में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पेपर- I के परिणाम की घोषणा ।

कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 27.10.2020 से 30.10.2020 तक देश भर के विभिन्न केंद्रों में और दिनांक 10.12.2020 से 11.12.2020 तक बिहार के केंद्रों का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित मोड में कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, वैद्युत और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2019 (पेपर-I) का आयोजन किया था ।

2. चूंकि पेपर-I (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) को कई पालियों में आयोजित किया गया था, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित सूत्र के अनुसार सामान्यीकृत किया गया है। परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 12.7 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा के अगले चरण में अभ्यर्थियों की उपस्थिति के लिए उनकी अर्हता हेतु परिणाम तैयार करने के लिए उनके सामान्यीकृत अंकों का उपयोग किया गया है।

3. परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा -17.3 के संदर्भ में, पेपर- I में न्यूनतम अर्हक अंक अना. के लिए 30% (अर्थात 60 अंक), अ.पि.व. और आ.क.व. के लिए 25% (अर्थात 50 अंक) और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 20% (अर्थात 40 अंक) निर्धारित किए गए हैं।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार कट-ऑफ विवरण और परीक्षा के पेपर-II (वर्णनात्मक) में उपस्थित होने के लिए अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार है:

I.सिविल अभियांत्रिकी :

श्रेणी	कट-ऑफ अंक	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
--------	-----------	------------------------------

अ.जा.	101.70364	843
अ.ज.जा.	102.61781	434
अ.पि.व.	115.93457	1719
आ.क.व.	112.28955	824
अना.	123.52838	860 *
अ.दि.	92.24190	35
श्र.दि.	55.73328	35
कुल		4750

* अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 70-अ.जा., 52-अ.ज.जा., 817-अ.पि.व., और 359- आ.क.व., अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

II. वैद्युत /यांत्रिकी अभियांत्रिकी:

श्रेणी	कट-ऑफ अंक	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
अ.जा.	140.59015	148
अ.ज.जा.	135.88541	74
अ.पि.व.	153.26874	348
आ.क.व.	151.04061	158
अना.	157.47167	181 *
अ.दि.	127.29476	14
श्र.दि.	92.49467	8
कुल		931

*अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 08-अ.जा., 02-अ.ज.जा., 162-अ.पि.व., और 60- आ.क.व., अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

5. कनिष्ठ अभियंता परीक्षा, 2019 की वर्णनात्मक परीक्षा (पेपर-11) दिनांक 21.03.2021 (अंतिम) को आयोजित की जानी निर्धारित की गई है। अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के परीक्षा के शहर और प्रवेश प्रमाण पत्र की स्थिति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तथापि, जो अभ्यर्थी अपने प्रवेशपत्र डाउनलोड करने में असमर्थ रहते हैं, वे तुरंत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। यह दायित्व पूर्णरूप से अभ्यर्थियों का है कि वे प्रवेश प्रमाणपत्र समय पर डाउनलोड कर लें।

6. अंतिम उत्तर-कुंजियों के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और जहां भी आवश्यक समझा गया है, उत्तर-कुंजियों को संशोधित किया गया है। इन संशोधित उत्तर-कुंजियों को मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया गया है। अंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 08.03.2021 को अपलोड की जाएंगी।

7. अर्हताप्राप्त/गैर-अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के अंक दिनांक 08.03.2021 को आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके दिनांक 08.03.2021 से 28.03.2021 तक अपने अंक देख सकते हैं।

अवर सचिव (गो -1/1)

01.03.2021